

पारगमन-उन्मुख शहरी विकास

प्रलिस के लयि:

पारगमन उन्मुख विकास (TOD), विकास केंद्र, पेरी-शहरी कषेत्र, भूमि उपयोग, बाज़ार संभावति मूल्य, सार्वजनिक पारगमन, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, आपदा लचीलापन, राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास (TOD) नीति, 2017, शहरी बुनियादी ढांचा विकास नधि (UIDF)

मेन्स के लयि:

शहरी कषेत्रों के सतत् कामकाज में पारगमन उन्मुख विकास की भूमिका ।

[स्रोत: द हद्दि](#)

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लयि [पारगमन उन्मुख विकास](#) (Transit-Oriented Development- TOD) योजना का प्रस्ताव रखा ।

- आर्थिक और पारगमन योजना तथा [पेरी-अरबन कषेत्रों](#) (शहर के आसपास के कषेत्र) के व्यवस्थित विकास के माध्यम से शहरों को "विकास केंद्रों" के रूप में विकसित किया जाएगा ।


पारगमन उन्मुख विकास (TOD) क्या है?

परचिय:

- TOD एक योजना रणनीति है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों के आसपास नौकरियों, आवास और सेवाओं को केंद्रित करना है ।
 - यह ऐसे विकास को प्रोत्साहित करता है जहाँ पैदल या बाइक से जाना आसान हो, तथा नौकरियाँ, घर और सेवाएँ परिवहन विकल्पों के निकट स्थित हों ।
- TOD इस विचार पर काम करता है कि आर्थिक विकास, शहरी परिवहन और [भूमि उपयोग](#) को एक साथ नियोजित करने पर वे अधिक कुशल होते हैं ।
- इस दृष्टिकोण का उपयोग [स्टॉकहोम](#), [कोपेनहेगन](#), [हॉन्गकॉन्ग](#), [टोक्यो](#) और [सगिापुर](#) जैसे शहरों में सफलतापूर्वक किया गया है ।

वशिव बैंक 3V फ्रेमवर्क TOD योजनाओं का मार्गदर्शन करता है:

- नोड मूल्य:** यह यात्री यातायात, अन्य परिवहन साधनों के साथ कनेक्शन और नेटवर्क के भीतर केंद्रीयता के आधार पर सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में किसी स्टेशन के महत्व का वर्णन करता है ।
- स्थानीय मान:** यह स्टेशन के आसपास के कषेत्र की गुणवत्ता और आकर्षण को दर्शाता है ।
 - प्रमुख कारकों में विधि भूमि उपयोग, [स्कूल और स्वास्थ्य सेवा](#) जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच, पैदल या साइकलि दूरी के भीतर सुविधाओं की उपलब्धता, पैदल यात्री-अनुकूल डिज़ाइन तथा स्टेशन के आसपास शहरी ब्लॉकों का आकार शामिल हैं ।
- बाज़ार संभावति मूल्य:** यह स्टेशनों के आसपास के कषेत्रों के [संभावति बाज़ार मूल्य](#) को संदर्भित करता है ।
 - इसका आकलन आस-पास की वर्तमान और भविष्य की नौकरियों की संख्या, 30 मिनट के भीतर परिवहन द्वारा उपलब्ध नौकरियों की संख्या, आवास घनत्व, विकास के लयि उपलब्ध भूमि, संभावति कषेत्र परिवर्तन तथा [समग्र बाज़ार गतिविधि](#) जैसे कारकों पर विचार करके किया जाता है ।




▪ TOD के लाभ:

- **आर्थिक प्रतिसिपर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना:** TOD अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले शहरों को योजनाबद्ध तरीके से धारणीय शहरी विकास केंद्रों के रूप में विकसित करता है और छोटे क्षेत्रों में नौकरियों का समूह बनाता है, जिससे शहर की प्रतिसिपर्द्धात्मकता में वृद्धि जैसे लाभ होते हैं।
 - शोध से पता चलता है कि नौकरी घनत्व को दोगुना करने से आर्थिक उत्पादकता 5 से 10% तक बढ़ सकती है।
- **जीवंत और रहने योग्य समुदाय:** TOD नौकरियों, आवास और सुविधाओं को पारगमन स्टेशनों के करीब लाता है, शानदार सार्वजनिक स्थानों और कम यात्रा दूरी के साथ जीवंत समुदायों का निर्माण करता है, जिससे शहर अधिक रहने योग्य बनते हैं।
- **कॉम्पैक्ट शहरी विकास और सार्वजनिक परिवहन का पारस्परिक सुदृढीकरण:** कॉम्पैक्ट शहरी विकास और अच्छा सार्वजनिक परिवहन एक साथ काम करते हैं। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र अधिक यात्रियों को लाते हैं, जिससे परिवहन प्रणाली लाभदायक बनती है जबकि स्टेशनों के पास नौकरियों और आवासों का संकेन्द्रण इन परिवहन प्रणालियों का समर्थन करता है।
- **अचल संपत्ति के मूल्य में वृद्धि:** जन परिवहन के निकट होने के कारण TOD क्षेत्र अधिक आकर्षक बन जाते हैं, जिससे अचल संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है।
 - शहर इस अतिरिक्त मूल्य का उपयोग परिवहन उन्नयन, कफ़ायती आवास और सतत विकास के लिये कर सकते हैं।
 - हॉन्गकॉन्ग में इस दृष्टिकोण से वर्ष 1980 और 2005 के बीच 140 बिलियन हांगकांग डॉलर जुटाए गए तथा 6,00,000 सार्वजनिक आवास इकाइयों के लिये भूमि उपलब्ध कराई गई।
- **समावेशिता को बढ़ावा देना:** यद्यपि TOD संपत्ति की कीमतों में वृद्धि कर सकता है, लेकिन नए विकास में कफ़ायती आवास को शामिल करके इसे कम किया जा सकता है।
 - समावेशी TOD दृष्टिकोण सभी आय स्तर के लोगों के लिये नौकरियों और सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
- **कार्बन फुटप्रिंट में कमी:** TOD से कार का उपयोग कम होता है, यात्रा का समय कम होता है, उत्पादकता बढ़ती है, तथा कार्बन उत्सर्जन कम होता है।
 - उदाहरण के लिये स्टॉकहोम में पारगमन मार्गों का विकास होने से प्रतिव्यक्ति आर्थिक मूल्य में 41% की वृद्धि हुई तथा वर्ष 1993 से 2010 तक प्रतिव्यक्ति गरीनहाउस गैस उत्सर्जन में 35% की कमी आई।
- **आपदा लचीलेपन को समर्थन प्रदान करना:** जब प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिक्रम संवेदनशील क्षेत्रों में इसे क्रियान्वित किया जाता है, तो TOD सुरक्षित क्षेत्रों में उच्च घनत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करके आपदा लचीलेपन को बढ़ा सकता है, जिससे जोखिमों का जोखिम कम हो जाता है।

BENEFITS OF TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT

Americans believe transit oriented development provides an array of benefits ranging from lifestyle to environmental to economic.



■ TOD की मांग को बढ़ाने वाले कारक:

- तेज़ी से बढ़ती यातायात भीड़: राष्ट्रव्यापी यातायात भीड़ तेज़ी से बढ़ रही है और अत्यधिक होती जा रही है, जिससे अधिक कुशल शहरी नयोजन की आवश्यकता उत्पन्न हो रही है।
- उपनगरीय क्षेत्रों के प्रति असंतोष: उपनगरीय क्षेत्रों के वस्तु और पट्टी विकास के प्रति असंतोष बढ़ रहा है, जिसके कारण लोग विकल्प तलाश रहे हैं।
- गुणवत्तापूर्ण शहरी जीवनशैली की इच्छा: अधिक लोग उच्च गुणवत्ता वाली शहरी जीवनशैली की चाहत रखते हैं, जो बेहतर सुविधाएँ और अनुभव प्रदान करती हो।
- पैदल चलने योग्य वातावरण को प्राथमिकता: अधिक पैदल चलने योग्य जीवनशैली की इच्छा बढ़ रही है, जो भारी यातायात से मुक्त हो, तथा दैनिक सुविधा और सुरक्षा को बढ़ाए।
- पारिवारिक संरचना में परिवर्तन: एकल-व्यक्ति परिवारों और खाली-घोंसले वालों (जिनके वयस्क बच्चे घर छोड़ चुके हैं) की संख्या में वृद्धि से शहरी जीवन विकल्पों की मांग प्रभावित हो रही है।
- स्मार्ट विकास के लिये समर्थन: स्मार्ट विकास सदिशांतों हेतु राष्ट्रीय समर्थन बढ़ रहा है, जो सतत और कुशल भूमि उपयोग पर जोर देते हैं।

■ TOD के घटक:

- पैदल चलने योग्य डिज़ाइन: इसमें पैदल चलने पर मुख्य ध्यान देते हुए पैदल यात्री अनुकूल डिज़ाइन को प्राथमिकता दी गई है।
- क्षेत्रीय नोड: इसमें एक क्षेत्रीय नोड में उपयोगों का मिश्रण शामिल होता है, जैसे कार्यालय स्थान, आवासीय क्षेत्र, खुदरा और नागरिक सुविधाएँ, सभी एक दूसरे के नजदीक होते हैं।
- कलेक्टर ट्रांजिट सस्टिम: इसमें स्ट्रीटकार, लाइट रेल और बस जैसी सहायक ट्रांजिट प्रणालियाँ शामिल हैं।
 - दैनिक परिवहन विकल्प के रूप में साइकिल और स्कूटर के आसान उपयोग के लिये डिज़ाइन किया गया।
- प्रबंधित पार्किंग: पार्किंग की व्यवस्था कम कर दी गई है तथा शहर के केंद्र और रेलवे स्टेशन के चारों ओर 10 मिनट की पैदल दूरी के भीतर इसका प्रबंधन किया गया है।
- वशिष्ट खुदरा: स्टेशनों पर यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिये कैफे, करिना स्टोर और ड्राई क्लीनर जैसी वशिष्ट खुदरा सेवाएँ उपलब्ध हैं।

TOD से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- महानगर स्तर पर क्षेत्रीय समन्वय का अभाव: भारत के महानगरीय क्षेत्रों में प्रायः अलग-अलग एजेंडे वाले कई नगरपालिका और राज्य प्राधिकरण होते हैं, जिसके कारण TOD नयोजन खंडित हो जाता है।
- समावेशी नहीं: भूमि उपयोग और परिवहन के लिये अलग-अलग नयोजन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप असंगत लक्ष्य एवं अकुशल TOD विकास हो सकता है।
 - इसके अलावा इसमें कृषि और संबद्ध सेवाओं जैसे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में नहीं रखा गया है।
- उच्च जनसंख्या घनत्व: अपर्याप्त वनियमन के परिणामस्वरूप या तो कुछ क्षेत्रों में विकास का अत्यधिक संकेंद्रण हो सकता है या अन्य क्षेत्रों में कम प्रयोग हो सकता है।
 - इससे उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचना पर दबाव पड़ सकता है, जबकि शहर के अन्य हिस्से अविकसित और अपर्याप्त संपर्क वाले रह जाएंगे।
- उपेक्षित शहरी डिज़ाइन: कई भारतीय शहरों में अच्छी तरह से डिज़ाइन किये गए फुटपाथ, करॉसवॉक और पैदल यात्री क्षेत्र की कमी है, जिससे सुरक्षित व आराम से ट्रांजिट स्टेशनों तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। इससे पैदल चलने वालों को खतरनाक और भीड़भाड़ वाले रास्तों से यात्रा करने के लिये मज़बूर होना पड़ेगा।
- भारतीय शहरों के लिये अनुपयुक्त: हॉन्गकॉन्ग और सगिपुर जैसे द्वीपीय शहरों में TOD भूमि उपयोग दक्षता को अधिकतम करता है, जिससे अधिक लोगों को पारगमन क्षेत्र के नजदीक रहने और कार्य करने की अनुमति मिलती है, जिससे व्यापक विकास की आवश्यकता कम हो जाती है। यह नई दिल्ली या बेंगलुरु जैसे भारतीय शहरों के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता है।

- लोगों के व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं: **ग्रीनहाउस गैस (GHG)** उत्सर्जन को कम करने के लिये नज्दी वाहनों के उपयोग को कम करने में व्यवहार परिवर्तन एक महत्त्वपूर्ण कारक है। अकुशल सार्वजनिक परिवहन तंत्रों में भारी नविश के बावजूद TOD लोगों को नज्दी वाहन का उपयोग कम करने के लिये प्रेरित नहीं कर सकता है।
- आपदा के प्रति अधिक संवेदनशीलता: एक छोटे से क्षेत्र में लोगों की भीड़भाड़ से आपदा के दौरान हताहतों और घायलों की संभावना बढ़ जाती है। सड़कों, उपयोगिताओं और आपातकालीन सेवाओं जैसे अत्यधिक बोझ वाली बुनियादी अवसंरचना के कारण आपदा के दौरान यह जल्दी ही अभिभूत हो सकता है।
- शहरी प्रसार: तेज़ी से शहरीकरण के कारण शहरों का वसतिरूप हो रहा है, जिससे कॉम्पैक्ट वॉकेबल पड़ोस बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। उदाहरण के लिये अहमदाबाद जैसे शहरों में काफी प्रसार है, जिससे TOD सदिधांतों के क्रयान्वयन में जटिलता आ रही है।
- सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ: यह सुनिश्चित करना कि TOD से सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों को लाभ मिले, यह महत्त्वपूर्ण है, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी। इस बात का जोखिम है कि नए विकास मुख्य रूप से नमिन-आय वाले निवासियों को छोड़कर समृद्ध आबादी के आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।
- अन्य मुद्दे: वनियामक, सामुदायिक और वित्तीय चुनौतियाँ बंगलुरु, चेन्नई व कोलकाता जैसे भारतीय शहरों में TOD में बाधा डालती हैं। ज़ोनगि कानून, सामुदायिक प्रतिरोध और बजट की कमी मशरति-उपयोग विकास तथा पारगमन सुधारों को सीमित करती है।

राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास (TOD) नीति, 2017

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने **राष्ट्रीय पारगमन-उन्मुख विकास नीति 2017** शुरू की। इसे शहरी विकास के लिए पारगमन उन्मुख विकास (TOD) का उपयोग करने में राज्यों और शहरों की सहायता करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- वज़िन:
 - परिवर्तन: नज्दी वाहन पर निर्भरता से सार्वजनिक परिवहन-उन्मुख विकास की ओर बदलाव।
 - पहुँच: सार्वजनिक परिवहन के उपयोग, हरति गतिशीलता को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना।
 - पैदल चलने योग्य समुदाय: कॉम्पैक्ट, कफ़ायती और पैदल चलने योग्य वातावरण विकसित करना।
 - सार्वजनिक परिवहन: पारगमन और पैदल यात्राएँ बढ़ाना, प्रदूषण और भीड़भाड़ को कम करना।
 - सघन अवसंरचना: सघन सड़क नेटवर्क बनाना और नज्दी वाहन स्वामित्व को कम करना।
 - समावेशी आवास: कफ़ायती और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये आवास शामिल करना।
 - मनोरंजन और सुरक्षा: विशेष रूप से कमज़ोर समूहों के लिये मनोरंजक स्थान और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
 - पर्यावरणीय प्रभाव: पर्यावरण के अनुकूल यात्रा विकल्पों को बढ़ावा देकर कार्बन पदचिहनों को कम करना।

भारत में पारगमन उन्मुख शहरी विकास के लिये की गई पहल

- [राष्ट्रीय TOD नीति 2017](#)
- [मेट्रो रेल नीति 2017](#)
- [शहरी अवसंरचना विकास नधि \(UIDF\)](#)
- [मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब \(MMTH\)](#)

नषिकर्ष

ट्रांज़िट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) एक आधुनिक शहरी नियोजन दृष्टिकोण है जो उच्च घनत्व, मशरति-उपयोग वाले वातावरण को बढ़ावा देने के लिये भूमि उपयोग को ट्रांज़िट इंफ़्रास्ट्रक्चर के साथ एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य वाहनों पर निर्भरता को कम करना, भीड़भाड़ को कम करना और स्थिरता को बढ़ाना है। सफल TOD समन्वय, ऊर्ध्वगामी विकास और बेहतर कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है, जिसे भारत में अपनाया जा रहा है।

?????? ???? ????:

प्रश्न: चर्चा कीजिये कि ट्रांज़िट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) शहरों के सतत् विकास में कैसे एक गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है। भारतीय शहरों के लिये TOD के साथ क्या चुनौतियाँ आती हैं?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

??????

प्रश्न. भारत में तीव्र आर्थिक विकास के लिये कुशल और कफ़ायती शहरी जन परिवहन कैसे महत्त्वपूर्ण है? (2019)

प्रश्न. भारत में शहरी जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ, 'स्मार्ट सिटी कार्यक्रम' के उद्देश्यों और रणनीतिक परचिय दीजिये। (2016)

